



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Pledge to EERWD Women Div Baroda - J.

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

M/S BALAJEE CONSTRUCTION		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35580300008526
AT BANGAMA PO RANGA PS BALHAR DIST BANKA 813104 INDIA		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1507235638
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	DX5001294
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35580400000113
		शाखा का नाम/Branch Name	BANKABIHAR
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1		
पैन नंबर / PAN No.	AAIFB2783M	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	PROPRIETOR		
लियन चिह्नित / Lien Marked	Y		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1296000	15-07-2023	7.25	0 Months 399 Days	17-08-2024	1401648

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1 ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है 2 स्वतः नवीकरण क्लॉज i) यदि अवधि अवधि न दिए हो तो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय ब्याज पर प्रचलित ब्याज दर के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii) कोई निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय ब्याज पर प्रचलित ब्याज दर के अनुसार इन्हीं ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3 फॉर्म 15G और 15H सिर्फ निवासी खातों के लिए है 4 निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी 15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा खाते पर कर कटौती की जाएगी 5 फॉर्म 15H केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा 6 परिपक्वता अहरण क्लॉज i) 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समायुक्त बंद करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू काई दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा ii) 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समायुक्त बंद करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू काई दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समायुक्त अहरण के लिए जमा राशि के अहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक की सूचना दी जानी चाहिए 7 निर प्रतिवर्ष जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व अहरण की अनुमति नहीं है	1 Rate of Interest is in percentage per annum 2 Automatic Renewal Clause i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise 3 Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only 4 A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5 Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6 Premature Withdrawal Clause i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank 7 In case of 'NON-CALLABLE DEPOSIT' - Premature withdrawal not allowed
--	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature





बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

play + EERW WORK DTW
Kodak Div Barre - L.



जमा पुष्टि लेख / Deposit Confirmation Advice

M/S BALAJEE CONSTRUCTION		सावधि खाता नं./ FD A/c No	35580300008527
AT BANGAMA PO RANGA PS BALHAR DIST BANKA 813104 INDIA		सावधि सूचना नं./ FD Advice No	FDR1507235653
		कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No	DKS001294
		संबंधित खाता / Linked Operative a/c	35580400000113
		शाखा का नाम/Branch Name	BANKABIHAR
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT		
नामांकन / Nomination	Y	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1		
पैन नंबर / PAN No.	AAIFB2783M	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	PROPRIETOR		
लियन चिह्नित / Lien Marked	Y		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1760000	15-07-2023	7.25	0 Months 399 Days	17-08-2024	1903473

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज i. यदि अवधि अनुदेश न दिने हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii. कोई निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3. फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है। 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी, 15 एच, 15ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा। 6. प्रत्येक आहरण क्लॉज i. रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। ii. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम 31 दिन पहले बैंक की सूचना दी जानी चाहिए। 7. गैर प्रतिदेय जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause. i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more). 6. Premature Withdrawal Clause. i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.
---	---


Please note, this is a system generated advice and does not require any signature





बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Pledge: E.E.RWD WORK DIV
BANKA-1



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

M/S BALAJEE CONSTRUCTION		खाता क्र. / FD A/c No	35580300008296
AT BANGAMA PO RANGA PS BALHAR DIST BANKA 813104 INDIA		खाता सूचना क्र. / FD Advice No	FDR1504231029
		कार्टर आईडी क्र. / Customer ID No	DX5001294
		संबंधित खाता / Linked Operative a/c	35580400000113
		शाखा का नाम/Branch Name	BANKABIHAR
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAIFB2783M	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	PROPRIETOR		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1050000	15-04-2023	7.05	0 Months 399 Days	18-05-2024	1133163

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :	2. Automatic Renewal Clause :
i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए बी गढ़ जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii). कोई निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए बी गढ़ जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच शिर्फ निवासी खातों के लिए है.	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी.	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज :	6. Premature Withdrawal Clause :
i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी समीची अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कोई रेट से 1% कम	i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
ii). 1 करोड़ से अधिक की बी जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी समीची अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कोई रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की बी जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

